



KALYANI COMMERCIALS LIMITED

Regd off: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, New Delhi-110042

CIN: L45300DL1985PLC021453

E-mail: kalyanicommercialslimited@gmail.com

Website-www.kalyanicommercials Ltd.com

Ph. 011- 43063223, 011-47060223

Ref: 1308/KCL/NSE/2025-26

13th August, 2025.

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block- G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400051

Subject: Newspaper Publication of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025.

Dear Sir(s),

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Standalone Un-Audited financial results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the Quarter ended 30th June, 2025 published by the Company in following newspaper(s):

1. Financial Express (English Language) dated 13th August, 2025.
2. Jansatta (Hindi language) dated 13th August, 2025.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

For Kalyani Commercials Limited

Sourabh Agarwal
(Whole Time Director and CFO)

DIN: 02168346

Office Address: BG-223, Sanjay Gandhi Transport
Nagar, GT Kamal Road, New Delhi-110042

SBEC SUGAR LIMITED						
Regd. Off.: Village Loyan Malakpur, Tehsil Baraut, District: Baghpat, Uttar Pradesh-250611						
CIN: L15421UP1991PLC019160						
Tel.: 01234-259206 Fax: +91-1234-259200						
E-mail: investors@sbecsugar.com, Website: www.sbecsugar.com						
EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025						
(Rs. in Lacs)						
S. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED	
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	
		30.06.2025 Unaudited	30.06.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited	30.06.2025 Unaudited	30.06.2024 Unaudited
1	Total Income	11940.20	14,071.06	62157.73	11989.91	14125.17
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2338.35)	(975.52)	(1178.61)	(2604.91)	(1232.90)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and share of Profit/Loss of Associates)	(2338.35)	(975.52)	(1178.61)	(2604.91)	(1232.90)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(2338.35)	(975.52)	(1178.61)	(2604.91)	(1232.90)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	(2347.13)	(977.57)	(1213.74)	(2613.59)	(1235.02)
6	Paid up Equity Share Capital	4765.39	4765.39	4765.39	4765.39	4765.39
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year			(10872.40)		
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)					
a	Basic	(4.91)	(2.05)	(2.47)	(5.47)	(2.59)
b	Diluted	(4.91)	(2.05)	(2.47)	(5.47)	(2.59)

NOTE:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations,2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.sbecsugar.com.
- The above Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 12, 2025.
- The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (As amended)

By Order of Board
Sd/-
Umesh Kumar Modi
Chairman & President
DIN: 00002757

Place: New Delhi
Date : 12.08.2025

BERVIN INVESTMENT AND LEASING LIMITED
607, ROHIT HOUSE, 3, TOLSTOY MARG, NEW DELHI-110001
CIN : L65993DL1990PLC039397
Ph: 91-11-43528248, Email Id:- secretary@bervin.com; Website: www.bervin.com

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

The Board of Directors of Bervin Investment and Leasing Limited, at their meeting held on Tuesday, August 12, 2025, have inter-alia, considered and approved the Unaudited Financial Results along with the Limited Review report of the Company for the quarter ended June 30, 2025.

The Unaudited financial results, along with the Limited Review Report, have been posted on the Company's website at www.bervin.com and can be accessed by scanning the QR code.



By Order of the Board
For BERVIN INVESTMENT AND LEASING LIMITED
Sd/-
Satish Kumar Murgai
Director

Place: New Delhi
Date : 12.08.2025

Note:- The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

SBEC SYSTEMS (INDIA) LTD.							
CIN :L74210DL1987PLC029979							
REGD.OFFICE: 1400, HEMKUNT TOWER, 98, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019							
Tel.: +91-11-42504842							
E-Mail : sbecsystems@rediffmail.com, Website : www.sbecsystems.in							
EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025							
(Rs. in Lakhs)							
Sr. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2025 Un-Audited	30.06.2024 Un-Audited	31.03.2025 Audited	30.06.2025 Un-Audited	30.06.2024 Un-Audited	31.03.2025 Audited
1	Total Income from Operations	94.98	66.53	376.91	94.98	66.53	376.91
2	Net Profit / (Loss) for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	22.03	27.46	171.59	22.03	27.46	171.59
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items and share of Profit/Loss of Associates)	22.03	27.46	243.78	22.03	27.46	243.78
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	22.03	19.82	243.78	22.03	19.82	243.78
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	-	-	-	-	-	-
6	Equity Share Capital	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year	-	-	-797.97	-	-	(2221.06)
a	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)						
b	Diluted	0.22	0.20	2.44	0.22	0.20	2.44

Kalyani Commercial Limited

Registered office: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, New Delhi-110042

Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com; Website: www.kalyanicommercialsltd.com;

Contact No: 011-43063223, 011-47060223; CIN:L45300DL1985PLC021453

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2025

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended		
		30/06/2025 (Un-Audited)	31/03/2025 (Audited)	30/06/2024 (Un-Audited)	31/03/2025 (Audited)
1	Total Income from operations	9548.23	10414.95	5794.43	38883.44
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	84.21	116.56	82.71	336.03
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	84.21	116.56	82.71	336.03
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	63.01	72.37	61.71	233.26
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	63.86	79.74	61.71	240.63
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Other Equity				
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):				
	Basic:	6.3	7.24	6.17	23.33
	Diluted:	6.3	7.24	6.17	23.33

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity
https://nsearchives.nseindia.com/corporate/KALYANI_12082025161037_BMOOutcome.pdf. and
<https://www.kalyanicommercial.com/financial-results>
- The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 12th August, 2025. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.

On Behalf of the Board
For Kalyani Commercial Limited

Sd/-
Sourabh Agarwal
(W/hole time director and CFO)
DIN: 02168346

Date : 12th August, 2025

Place : New Delhi



RAMA VISION LIMITED

CIN : L32203UR1989PLC015645

Corp. Off.: Rama House, 23, Najafgarh Road, Industrial Area, Shivaji Marg, New Delhi-110015 (INDIA)

Tel.: 011-45349999 Website: www.ramavisionltd.com Email: info@ramavisionltd.com

Regd. Off. & Factory: Plot No. 10/1, 10/2, Khasra no. 302 & 307, Himalayan Mega Food Park, Central Processing Center, Mahuakhera Ganj, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand-244713

Tel.: 05947-297511 Email ID: site1@ramavisionltd.com

STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2025

The Board of Directors of Rama Vision Limited ("the Company"), based on the recommendation of the Audit Committee, at its meeting held on August 12, 2025 has approved the standalone unaudited financial results of the Company for the quarter ended on June 30, 2025 together with Limited Review Report of the Statutory Auditors, in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said financial results as filed with the Stock Exchange – BSE Ltd. are available on the BSE Ltd. Website (www.bseindia.com), the Company's webpage (www.ramavisionltd.com/wp-content/uploads/docs/financial-info/quarterly-results/30-06-2025.pdf) and can also be accessed by scanning the following Quick Response Code.





For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Satish Jain
Chairman and Managing Director
DIN: 00052215

Place: New Delhi
Date: 25.08.2025

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Satish Jain
Chairman and Managing Director
DIN: 00052215

[illegible]

HMA AGRO INDUSTRIES LIMITED					
CIN: L74110UP2008PLC034977					
Regd Off: 18A/5/3 Tajview Crossing, Fatehabad Road, Agra, Uttar Pradesh-282001					
Email Id: cs@hmaagro.com; Website: www.hmagroup.co					
					
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED JUNE 30,2025					
(Rs. In Millions except EPS)					
Sr. No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		JUNE 30, 2025	MARCH 31, 2025	JUNE 30,2024	MARCH 31, 2025
		Unaudited	Audited (Refer note 2)	Unaudited	Audited
1	Total Revenue from Operations	11,226.10	14,995.59	7,126.12	51,330.17
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	14.23	208.33	57.19	1,256.05
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	14.23	208.33	57.19	1,256.05
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	5.97	123.49	7.28	876.91
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.97	122.72	7.28	876.14
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs.1/- . Each)	500.77	500.77	500.77	500.77
7	Other Equity	7,394.27	7,388.29	6,678.15	7,388.29
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	0.02	0.26	0.03	1.75
	2. Diluted:	0.02	0.26	0.03	1.75
Note: 1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated IND AS financial results for the Quarter Ended June 30, 2025 , filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.hmagroup.co) 2The above consolidated financial results for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between the limited review figures for the nine-month ended December 31, 2024 and the audited figures for the year ended March 31, 2025 . 3 The above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 12, 2025 . 4.The key audited standalone financial information are as under:					
(Rs. In Millions except EPS)					
Sr. No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		June 30,2025	March 31, 2025	June 30,2024	March 31, 2025
		Unaudited	Audited (Refer Note 6)	Unaudited	Audited
1	Total Revenue from operations	10,884.92	14,368.20	6,939.45	48,621.43
2	Profit Before tax	95.75	48.48	68.93	908.24
3	Profit After tax	71.73	(14.79)	24.56	601.73
5. The above is an extract of Standalone IND AS financial statement which has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. 6. The above standalone financial results for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between the limited review figures for the nine month ended December 31 2024 and the audited figures for the year ended March 31, 2025 . 7.The detailed Financial Results can be access by scanning the QR Code given herewith.					
Place: Agra Date: August 12,2025				By the Order of Board of Directors For HMA Agro Industries Limited Sd/- Gulzar Ahmad Wholetime Director	



UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

सर्वजनिक नौलामी सूचना

सुद्वित्र

फाइनंशियल एक्सप्रेस – पृष्ठ संख्या 16 और जनसत्ता-पृष्ठ संख्या 10 में 03.08.2025 को प्रकाशित सार्वजनिक नौलामी सूचना के संदर्भ में, 26.08.2025 को निर्धारित नवी नीलामियों (खाता क्रमांक 1–8) 31.08.2025 को पुनर्निर्धारित की गई हैं और 10.09.2025 को निर्धारित सार्वजनिक नौलामियों (खाता क्रमांक 9) 18.09.2025 को पुनर्निर्धारित की गई हैं।

इस प्रकार, अब 31.08.2025 को निर्धारित सार्वजनिक नौलामी के लिए अधि राशि सहित बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 30.08.2025 को शाम 4:00 बजे तक होगी। और 18.09.2025 को निर्धारित सार्वजनिक नौलामी के लिए 17.09.2025 को शाम 4:00 बजे तक की समय सीमा होगी।

खातों के लिए अन्य सभी नियम और शर्तें समान रहेंगी।

दिनांक: 12.08.2025

स्थान: जोधपुर

प्राधिकृत अधिकारी,
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक



BAJAJ FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सी/ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स मुंबई पुणे रोड अकुडी पुणे-411035

कानपुर 208012 मिथर कोल्ड स्टोरेज के सामने, कानपुर, उत्तर प्रदेश 208001।

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अधिकृत अधिकारी का विवरण: कृष्णा श्रीवास्तव

ईमेल आईडी: kushagra.srivastava1@bajajfinserv.in मोबाइल: +91 8707650083

परिशिष्ट- IV-A

[नियम 8 (6) के प्रावधान के अनुसार]

सर्वेस्री अधिनियम 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आसित्यों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत अचल आसित्यों की बिक्री।

एतद्वारा आम जनता तथा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को नीचे उल्लिखित सुरक्षित आसित्यों के संबंध में सूचना दी जाती है, जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ("बीएफएल") के पास बंधक हैं, तथा जिसका कब्जा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बीएफएल के अपोहरताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को नीचे उल्लिखित राशि तथा आगे लागू ब्याज, शुल्क तथा लागत आदि की वसूली के लिए नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।

नीचे वर्णित सुरक्षित आसित्यों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम ("नियम") के नियम संख्या 8 एवं 9 के अंतर्गत "जैसी है, जैसी है तथा जो भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है।

जिसका विवरण निम्नानुसार है:


उधारकर्ताओं के नाम और पते	1. श्रीमान रवि प्रकाश सिंह पुत्र आदित्य प्रसाद सिंह निवासी एस. 561 यशोध नगर निकट डाकघर कानपुर 208011 नगर की निवासी केविन नंबर 304, तीसरी मंजिल परिसर नंबर 113/121 स्वरूप पर कानपुर 208002 में स्थित है। 2. शशी कला सिंह निवासी एस. 561 यशोध नगर निकट डाकघर कानपुर 208011 संपर्क नंबर 9918395363 ई-मेल आईडी- rpsocca@gmail.com
ऋण खाता संख्या	457P2HEX12681
धारा 13(2) के तहत वैधानिक माने नीचेय दिनांक और राशि	नोटीस दिनांक 26.04.2024 मांग राशि ₹ 2606865/-
11.08.2025 का बकाया राशि	₹. 2997748/- (केवल उन्तीस लाख सत्तरपने हजार सात सौ अड़तीस रुपये)
अचल संपत्तियों का विवरण	केविन संख्या 304, तीसरी मंजिल परिसर संख्या 113/121 स्वरूप नगर कानपुर 208002 में स्थित है, साथ ही साझा क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सेदारी इस प्रकार है: 1) परिसर 113/121: पूर्व- रोड; पश्चिम- प्लांट संख्या 169; उत्तर- 160 भाग सी. दक्षिण- बेजामर रोड; दक्षिण 304: पूर्व- केविन संख्या 305; पश्चिम- केविन संख्या 303; उत्तर- साझा मार्ग; दक्षिण- सामने की बालकनी, तत्पश्चात खुला रेत बैक
आश्वासित मूल्य रूपएं में	₹. 31,40,289/- (रुपये इकतीस लाख चालीस हजार दो सौ नवारी मात्र)
ईएमवी	₹. 3,14,029/- (तीन लाख चौहद हजार उन्तीस रुपये मात्र)
ई-नीलामी को तिथि एवं समय	15.09.25 पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक
ई-नीलामी पोर्टल	https://bankauctions.in
ईएमवी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	13.09.2025
बोली सुविश्लेश राशि रूपएं में	25,000/- ₹.
प्रतिभूति ऋणदाता का ज्ञाप प्रभार	ज्ञात नहीं
संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	13.08.25 से 13.09.25 तक कार्य दिवस पर सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे के बीच पूर्व निश्चित के साथ

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि यदि किसी भी कारण से यहां निर्धारित तिथि पर नीलामी विफल हो जाती है, तो सुरक्षित ऋणदाता अपने विवेक पर निजी रूप से आसित्यों के बिक्री के माध्यम से सुरक्षा हित लागू कर सकता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक https://bankauctions.in और https://www.bajajfinserv.in/notifications देखें।

दिनांक: 11.08.2025

स्थान: पुणे

अधिकृत अधिकारी,
बजाज फाइनेंस लिमिटेड



Satin Housing Finance Ltd.

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज -3 गुल्शन हरियाणा-122016

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, कुटुब नगर, आजादनगर कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, आजादनगर, नई दिल्ली-110033

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अधिकृत अधिकारी का विवरण: कृष्णा श्रीवास्तव

ईमेल आईडी: kushagra.srivastava1@bajajfinserv.in मोबाइल: +91 8707650083

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आसित्यों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत अचल आसित्यों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) ('कथित कर्जदार(रों)') को उन्ने निर्गत सम्बन्धित मांग सूचनाओं जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में उल्लिखित राशियों का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 05.08.2025 को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को धारा 13(2) के तहत एक बार पुनः इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में उल्लिखित राशि, कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों, यदि कोई हो, के तहत देय नीचे वर्णित तिथि(यों) से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक कथित सूचनाओं में वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित नीचे सूचित राशि तथा का 05.08.2025 तक भुगतान करने के लिए कहते हुए सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में कथित कर्जदार(रों) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास क्रमशः निम्नलिखित आसित्यों बंधक रखी गयी हैं।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम

मांग सूचना की तिथि तथा राशि

प्रतिभूत आसित (अचल सम्पत्ति) का विवरण

सर्वेस्री निर खवावत पुत्र नरसिंह सिंह खवावत (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 81,46,349.50/- (रुपये इक्कीसी लाख छियासह हजार तीन सौ उन्पचास और पचास पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

प्लांट संख्या-116, लव कुश नगर-I, महेरा नगर, जयपुर, राजस्थान, सीमाएं: उत्तर: प्लांट संख्या 117, दक्षिण: प्लांट संख्या 115, पूर्व: प्लांट संख्या 97, पश्चिम: सड़क 30' चौड़ी।

महेद सिंह खवावत पुत्र निरसिंह (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 73,90,364/- (रुपये तिरतर लाख नब्बे हजार तीन सौ चौदस मात्र) 09.07.2025 तक

प्लांट संख्या-118, रक्की- लव कुश नगर-I, जयपुर, राजस्थान सीमांतगत 176.66 वर्ग गज। सीमाएं: उत्तर: हिस्सेदार, दक्षिण: प्लांट संख्या 117, पूर्व: प्लांट संख्या 95, पश्चिम: सड़क 30' चौड़ी।

सीमा शेखावत पुत्र बासिंह राठी(कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 18,03,876.04/- (रुपये अठारह लाख बीस हजार आठ सौ छितार और चार पैसे मात्र) एवं ₹. 9,04,546.15/- (रुपये नौ लाख चार हजार पांच सौ छियासह और पंद्रह पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

प्लांट संख्या-एन-220-बी, बालाजी सागर-15, हातोड (बीड), कर्नाटक रोड, जयपुर, राजस्थान सीमांतगत 80.8 वर्ग गज। सीमाएं: उत्तर: प्लांट संख्या एन-221, दक्षिण: प्लांट संख्या एफ200-ए, पूर्व: 30' चौड़ी सड़क, पश्चिम: अन्य की भूमि।

विक्रम सिंह यादव पुत्र अमी लाल यादव (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 14,80,258/- (रुपये चौदह लाख अस्सी हजार दो सौ अठ्ठान मात्र) और ₹. 21,81,088/- (रुपये इक्कीस लाख इक्कीसी हजार अठ्ठारी मात्र) 09.07.2025 तक

पट्टा संख्या 004 पर संपत्ति, खसरा संख्या 128, ग्राम भोज का बाड़ा, हाजीपुर, ग्राम पंचायत हाजीपुर, पंचायत समिति बान्सूर, तहसील बान्सूर, जिला अलवर (क्षेत्रफल 300 वर्ग गज) पर स्थित है। सीमाएं - पूर्व - सुनन का खेत, पश्चिम - जयपुरम और बान्वावी लाल का खेत, उत्तर - विक्रम सिंह यादव का मकान और रास्ता, दक्षिण - विक्रम सिंह का खेत।

श्यामी राम पुत्र कृष्णा राम (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 14,51,217/- (रुपये चौदह लाख छपन हजार दो सौ सत्रह मात्र) और ₹. 4,12,565/- (रुपये चार लाख बारह हजार पाँच सौ पैंसठ मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय संपत्ति, अमरपुरा, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 275.62 वर्ग गज (मानचित्र ए-1 के अनुसार)। सीमाएं:- पूर्व:- मोतूराम का बाड़ा, पश्चिम: आम रास्ता सी.सी. रोड, उत्तर: रामा प्रतियोदी संख्या 2 का प्लांट, दक्षिण: आम रास्ता।

धर्मवीर काला पुत्र राम कुमार काला (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 14,56,056.65/- (रुपये चौदह लाख छपन हजार छपन और पैंसठ पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

पंजीकृत उपहार-पत्र दिनांक: 20-06-2018 वाला आवासीय प्लांट, ग्राम तत्कोना, तहसील पावडा, जिला पंचतुली, बरौड़ा (राजस्थान) में स्थित, क्षेत्रफल: 141.33 वर्ग गज। सीमा: पूर्व: 30' और 16' - आम रास्ता, पश्चिम: 30' और 16' - चौक, उत्तर: 36' और 12' - रामकिशोर बलाई की गली और मकान, दक्षिण: 36' और 12' - आम रास्ता।

वासुदेव पहिरार पुत्र नरसिंह पहिरार (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 9,43,954/- (रुपये नौ लाख तैतालीस हजार नौ सौ चौवन मात्र) 09.07.2025 तक

संपत्ति आवासीय प्लांट संख्या-45, सांखला-विहार योजना खसरा नं.-262, ग्राम-बादनीमालिया, जोधपुर, जिला- जोधपुर (राजस्थान) में स्थित है, क्षेत्रफल: 1416 वर्ग गज। क्षेत्रफल: 157.33 वर्ग गज। सीमा: पूर्व: सड़क- 30 वर्ग फुट, पश्चिम: अन्य की भूमि, उत्तर: भुईंद संख्या-44, दक्षिण: भुईंद संख्या-46

भूप सिंह पुत्र महावीर कमला देवी (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 6,95,775/- (रुपये छह लाख पंचानवे हजार सात सौ पंचहत्तर मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 42, ग्राम-सरखर, ग्राम पंचायत बाघेरी बुर्द, पंचायत समिति कोटकालीम, तहसील कोटकालीम, जिला अलवर, क्षेत्रफल: 161-22 वर्ग गज। सीमा: पूर्व - आम रास्ता, पश्चिम - दीपचंद, नंदराम आदि की खाली भूमि, उत्तर - महावीर का खाली भूखंड, दक्षिण - आम रास्ता।

संजु यादव पुत्र शिव दयाल (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 6,41,207/- (रुपये छह लाख इकतीसह हजार दो सौ सात मात्र) और ₹. 5,65,551/- (रुपये पाँच लाख पैसठ हजार पाँच सौ इक्वान मात्र) 09.07.2025 तक

भुईंद संख्या 19, गोविंद वाटिका, खसरा संख्या 3946, 3946/2 और 3952/8039 का भाग, क्षेत्रफल: 200.00 वर्ग गज, ग्राम श्रीनगर, तहसील नतीरावाड़, जिला अजमेर में स्थित।

इरफान. पुत्र अब्दुल रसीद (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 3,90,271/- (रुपये तीन लाख नब्बे हजार दो सौ इकत्तर मात्र) 09.07.2025 तक

172.36 वर्ग मीटर का आवासीय घर पट्टा नं.-149, खदीक मोहल्ला गुलाबपुरा, तहसील हनुवा विस्त-भीलवाड़ा, सीमा-पूर्व- आम बूँद, पश्चिम-गली, उत्तर- श्री जैमल का घर, दक्षिण-राजू रेयर का घर पर स्थित है।

राजमल धाकड़ पुत्र मैना धाकरे (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 3,07,054.87/- (रुपये तीन लाख सात हजार चौरास और सात पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय मकान, माप 1785 वर्ग फीट, स्थित पट्टा संख्या-18, आवादी सेड, ग्राम भिरवपुर, ग्राम पंचायत बावडी, पंचायत समिति जालापुर, जिला-भीलवाड़ा, सीमाएं- पूर्व- श्री रंजेश धाकड़, पश्चिम- श्री राम किशन धाकड़, उत्तर- बरडीय रोड, दक्षिण- प्लांट संख्या-23

गोशाल लाल भट्ट पुत्र गाराणाल लाल (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 2,95,787.38/- (रुपये दो लाख चौवनह हजार सात सौ सत्तासी और अड़तीस पैसे मात्र) (रुपये केवल पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय संपत्ति, प्लांट संख्या 1 का भाग, क्षेत्रफल 612.5 वर्ग फुट, कुल क्षेत्रफल- 1225 वर्ग फुट में से। खसरा संख्या- 1655 का भाग, बरडीय चौपाला, ग्राम हमीरगढ़, तहसील- हमीरगढ़, जिला- भीलवाड़ा (राजस्थान) में स्थित। सीमा- पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- प्लांट संख्या-1 का शेज भाग, उत्तर- बरडीय रोड, दक्षिण- प्लांट संख्या-23

पारस जैन पुत्र प्यार चंद (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 20,53,602/- (रुपये बीस लाख तिरपन हजार छह सौ दो मात्र) और ₹. 16,41,585.22/- (रुपये सोलह लाख इकतालीस हजार पाँच सौ पचासी मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय संपत्ति, पट्टा मिसर संख्या- 25/2016 का अधिप्राप्ति भाग, ग्राम पंचायत तिरडी, पंचायत समिति, गिरवा, जिला-भीलवाड़ा उदयपुर में स्थित, (क्षेत्रफल 675 वर्ग फीट) सीमाएं - पूर्व- 20 फीट चौड़ा मुख्य सड़क, पश्चिम- मोडा गमेवती का भूखंड, उत्तर- 20 फीट चौड़ा आम पथ, दक्षिण- जालू गमेती का भूखंड।

गौतम चंद बाबेल पुत्र ज्ञान चंद बाबेल (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 9,43,428/- (रुपये नौ लाख तैतालीस हजार चार सौ अठ्ठाईस मात्र) (रुपये तीन लाख तैतालीस हजार चार सौ पचास मात्र) 09.07.2025 तक

पट्टा संख्या- 28, ग्राम माली खेड़ा, पीपारा, ग्राम पंचायत पीपारा, पंचायत समिति मोडाल, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान में स्थित है, सीमाएं - पूर्व- 56 फीट परसामन बाबल का घर, पश्चिम- 59 फीट भवतदार और लाटुसदार का घर, उत्तर- 26 फीट नवद सिंह का घर, दक्षिण- 26 फीट का आम रास्ता।

मनीष प्रजापत पुत्र काना राम प्रजापत (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 6,11,424/- (रुपये छह लाख सात हजार चार सौ चौबीस मात्र) 09.07.2025 तक

ग्राम चूलुवाँ स्थित आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 16 ग्राम पंचायत चूलुवाँ पंचायत समिति डीडवाला जिला नागौर, माप क्षेत्रफल 82.57 वर्ग गज, सीमाएं:- उत्तर- अपनी भुवारी, दक्षिण: अपनी भुवारी और निवास मार्ग, पूर्व: भवरा राम का मकान, पश्चिम: अपना गौर।

धर्म सिंह पुत्र रव राधान (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 09.07.2025 तक ₹. 5,99,605/- (रुपये पाँच लाख निम्नानवे हजार छह सौ चौब मात्र)

संपत्ति संख्या 91-ए, उत्तम कालीनी, कल्या नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर में स्थित (क्षेत्रफल 37.47 वर्ग मीटर)। सीमाएं:- पूर्व:- गौ. नं. 91-बी, पश्चिम:- गौ. नं. 91, उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य भूखंड।

शशि चंद बाबेल पुत्र ज्ञान चंद बाबेल (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 09.07.2025 तक ₹. 5,99,605/- (रुपये पाँच लाख निम्नानवे हजार छह सौ चौब मात्र)


संपत्ति संख्या 91-ए, उत्तम कालीनी, कल्या नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर में स्थित (क्षेत्रफल 37.47 वर्ग मीटर)। सीमाएं:- पूर्व:- गौ. नं. 91-बी, पश्चिम:- गौ. नं. 91, उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य भूखंड।

यदि उक्त कर्जदार उपरोक्त के रूप में सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्तियों के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त कर्जदारों के लागत और परिणाम के जोड़िएम पर आगे को कार्यवाही करेगा। अधिनियम के माध्यम से, उपरोक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान : गुल्शन

दिनांक : 13.08.2025

ह. /- अधिकृत प्राधिकारी
सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



Satin Housing Finance Ltd.

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज -3 गुल्शन हरियाणा-122016

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, कुटुब नगर, आजादनगर कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, आजादनगर, नई दिल्ली-110033

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अधिकृत अधिकारी का विवरण: कृष्णा श्रीवास्तव

ईमेल आईडी: kushagra.srivastava1@bajajfinserv.in मोबाइल: +91 8707650083

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आसित्यों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत।

अपोहरताक्षरी वित्तीय आसित्यों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) ('कथित कर्जदार(रों)') को उन्ने निर्गत सम्बन्धित मांग सूचनाओं जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में उल्लिखित राशियों का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 05.08.2025 को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को धारा 13(2) के तहत एक बार पुनः इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में उल्लिखित राशि, कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों, यदि कोई हो, के तहत देय नीचे वर्णित तिथि(यों) से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक कथित सूचनाओं में वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित नीचे सूचित राशि तथा का 05.08.2025 तक भुगतान करने के लिए कहते हुए सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में कथित कर्जदार(रों) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास क्रमशः निम्नलिखित आसित्यों बंधक रखी गयी हैं।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम

मांग सूचना की तिथि तथा राशि

प्रतिभूत आसित (अचल सम्पत्ति) का विवरण

सर्वेस्री निर खवावत पुत्र नरसिंह सिंह खवावत (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 81,46,349.50/- (रुपये इक्कीसी लाख छियासह हजार तीन सौ उन्पचास और पचास पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

प्लांट संख्या-116, लव कुश नगर-I, महेरा नगर, जयपुर, राजस्थान, सीमाएं: उत्तर: प्लांट संख्या 117, दक्षिण: प्लांट संख्या 115, पूर्व: प्लांट संख्या 97, पश्चिम: सड़क 30' चौड़ी।

महेद सिंह खवावत पुत्र निरसिंह (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 73,90,364/- (रुपये तिरतर लाख नब्बे हजार तीन सौ चौदस मात्र) 09.07.2025 तक

प्लांट संख्या-118, रक्की- लव कुश नगर-I, जयपुर, राजस्थान सीमांतगत 176.66 वर्ग गज। सीमाएं: उत्तर: हिस्सेदार, दक्षिण: प्लांट संख्या 117, पूर्व: प्लांट संख्या 95, पश्चिम: सड़क 30' चौड़ी।

सीमा शेखावत पुत्र बासिंह राठी(कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 18,03,876.04/- (रुपये अठारह लाख बीस हजार आठ सौ छितार और चार पैसे मात्र) एवं ₹. 9,04,546.15/- (रुपये नौ लाख चार हजार पांच सौ छियासह और पंद्रह पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

प्लांट संख्या-एन-220-बी, बालाजी सागर-15, हातोड (बीड), कर्नाटक रोड, जयपुर, राजस्थान सीमांतगत 80.8 वर्ग गज। सीमाएं: उत्तर: प्लांट संख्या एन-221, दक्षिण: प्लांट संख्या एफ200-ए, पूर्व: 30' चौड़ी सड़क, पश्चिम: अन्य की भूमि।

विक्रम सिंह यादव पुत्र अमी लाल यादव (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 14,80,258/- (रुपये चौदह लाख अस्सी हजार दो सौ अठ्ठान मात्र) और ₹. 21,81,088/- (रुपये इक्कीस लाख इक्कीसी हजार अठ्ठारी मात्र) 09.07.2025 तक

पट्टा संख्या 004 पर संपत्ति, खसरा संख्या 128, ग्राम भोज का बाड़ा, हाजीपुर, ग्राम पंचायत हाजीपुर, पंचायत समिति बान्सूर, तहसील बान्सूर, जिला अलवर (क्षेत्रफल 300 वर्ग गज) पर स्थित है। सीमाएं - पूर्व - सुनन का खेत, पश्चिम - जयपुरम और बान्वावी लाल का खेत, उत्तर - विक्रम सिंह यादव का मकान और रास्ता, दक्षिण - विक्रम सिंह का खेत।

श्यामी राम पुत्र कृष्णा राम (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 14,51,217/- (रुपये चौदह लाख छपन हजार दो सौ सत्रह मात्र) और ₹. 4,12,565/- (रुपये चार लाख बारह हजार पाँच सौ पैंसठ मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय संपत्ति, अमरपुरा, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 275.62 वर्ग गज (मानचित्र ए-1 के अनुसार)। सीमाएं:- पूर्व:- मोतूराम का बाड़ा, पश्चिम: आम रास्ता सी.सी. रोड, उत्तर: रामा प्रतियोदी संख्या 2 का प्लांट, दक्षिण: आम रास्ता।

धर्मवीर काला पुत्र राम कुमार काला (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 14,56,056.65/- (रुपये चौदह लाख छपन हजार छपन और पैंसठ पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

पंजीकृत उपहार-पत्र दिनांक: 20-06-2018 वाला आवासीय प्लांट, ग्राम तत्कोना, तहसील पावडा, जिला पंचतुली, बरौड़ा (राजस्थान) में स्थित, क्षेत्रफल: 141.33 वर्ग गज। सीमा: पूर्व: 30' और 16' - आम रास्ता, पश्चिम: 30' और 16' - चौक, उत्तर: 36' और 12' - रामकिशोर बलाई की गली और मकान, दक्षिण: 36' और 12' - आम रास्ता।

वासुदेव पहिरार पुत्र नरसिंह पहिरार (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 9,43,954/- (रुपये नौ लाख तैतालीस हजार नौ सौ चौवन मात्र) 09.07.2025 तक

संपत्ति आवासीय प्लांट संख्या-45, सांखला-विहार योजना खसरा नं.-262, ग्राम-बादनीमालिया, जोधपुर, जिला- जोधपुर (राजस्थान) में स्थित है, क्षेत्रफल: 1416 वर्ग गज। क्षेत्रफल: 157.33 वर्ग गज। सीमा: पूर्व: सड़क- 30 वर्ग फुट, पश्चिम: अन्य की भूमि, उत्तर: भुईंद संख्या-44, दक्षिण: भुईंद संख्या-46

भूप सिंह पुत्र महावीर कमला देवी (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 6,95,775/- (रुपये छह लाख पंचानवे हजार सात सौ पंचहत्तर मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 42, ग्राम-सरखर, ग्राम पंचायत बाघेरी बुर्द, पंचायत समिति कोटकालीम, तहसील कोटकालीम, जिला अलवर, क्षेत्रफल: 161-22 वर्ग गज। सीमा: पूर्व - आम रास्ता, पश्चिम - दीपचंद, नंदराम आदि की खाली भूमि, उत्तर - महावीर का खाली भूखंड, दक्षिण - आम रास्ता।

संजु यादव पुत्र शिव दयाल (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 6,41,207/- (रुपये छह लाख इकतीसह हजार दो सौ सात मात्र) और ₹. 5,65,551/- (रुपये पाँच लाख पैसठ हजार पाँच सौ इक्वान मात्र) 09.07.2025 तक

भुईंद संख्या 19, गोविंद वाटिका, खसरा संख्या 3946, 3946/2 और 3952/8039 का भाग, क्षेत्रफल: 200.00 वर्ग गज, ग्राम श्रीनगर, तहसील नतीरावाड़, जिला अजमेर में स्थित।

इरफान. पुत्र अब्दुल रसीद (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 3,90,271/- (रुपये तीन लाख नब्बे हजार दो सौ इकत्तर मात्र) 09.07.2025 तक

172.36 वर्ग मीटर का आवासीय घर पट्टा नं.-149, खदीक मोहल्ला गुलाबपुरा, तहसील हनुवा विस्त-भीलवाड़ा, सीमा-पूर्व- आम बूँद, पश्चिम-गली, उत्तर- श्री जैमल का घर, दक्षिण-राजू रेयर का घर पर स्थित है।

राजमल धाकड़ पुत्र मैना धाकरे (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 3,07,054.87/- (रुपये तीन लाख सात हजार चौरास और सात पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय मकान, माप 1785 वर्ग फीट, स्थित पट्टा संख्या-18, आवादी सेड, ग्राम भिरवपुर, ग्राम पंचायत बावडी, पंचायत समिति जालापुर, जिला-भीलवाड़ा, सीमाएं- पूर्व- श्री रंजेश धाकड़, पश्चिम- श्री राम किशन धाकड़, उत्तर- बरडीय रोड, दक्षिण- प्लांट संख्या-23

गोशाल लाल भट्ट पुत्र गाराणाल लाल (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि 2,95,787.38/- (रुपये दो लाख चौवनह हजार सात सौ सत्तासी और अड़तीस पैसे मात्र) (रुपये केवल पैसे मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय संपत्ति, प्लांट संख्या 1 का भाग, क्षेत्रफल 612.5 वर्ग फुट, कुल क्षेत्रफल- 1225 वर्ग फुट में से। खसरा संख्या- 1655 का भाग, बरडीय चौपाला, ग्राम हमीरगढ़, तहसील- हमीरगढ़, जिला- भीलवाड़ा (राजस्थान) में स्थित। सीमा- पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- प्लांट संख्या-1 का शेज भाग, उत्तर- बरडीय रोड, दक्षिण- प्लांट संख्या-23

पारस जैन पुत्र प्यार चंद (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 20,53,602/- (रुपये बीस लाख तिरपन हजार छह सौ दो मात्र) और ₹. 16,41,585.22/- (रुपये सोलह लाख इकतालीस हजार पाँच सौ पचासी मात्र) 09.07.2025 तक

आवासीय संपत्ति, पट्टा मिसर संख्या- 25/2016 का अधिप्राप्ति भाग, ग्राम पंचायत तिरडी, पंचायत समिति, गिरवा, जिला-भीलवाड़ा उदयपुर में स्थित, (क्षेत्रफल 675 वर्ग फीट) सीमाएं - पूर्व- 20 फीट चौड़ा मुख्य सड़क, पश्चिम- मोडा गमेवती का भूखंड, उत्तर- 20 फीट चौड़ा आम पथ, दक्षिण- जालू गमेती का भूखंड।

गौतम चंद बाबेल पुत्र ज्ञान चंद बाबेल (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 9,43,428/- (रुपये नौ लाख तैतालीस हजार चार सौ अठ्ठाईस मात्र) (रुपये तीन लाख तैतालीस हजार चार सौ पचास मात्र) 09.07.2025 तक

पट्टा संख्या- 28, ग्राम माली खेड़ा, पीपारा, ग्राम पंचायत पीपारा, पंचायत समिति मोडाल, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान में स्थित है, सीमाएं - पूर्व- 56 फीट परसामन बाबल का घर, पश्चिम- 59 फीट भवतदार और लाटुसदार का घर, उत्तर- 26 फीट नवद सिंह का घर, दक्षिण- 26 फीट का आम रास्ता।

मनीष प्रजापत पुत्र काना राम प्रजापत (कर्जदार)

मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025

राशि ₹. 6,11,424/- (रुपये छह लाख सात हजार चार सौ चौबीस मात्र) 09.07.2025 तक

ग्राम चूलुवाँ स्थित आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 16 ग्राम पंचायत चूलुवाँ पंचायत समिति डीडवाला जिला नागौर, माप क्षेत्रफल 82.57 वर्